

## महापौर देवेन्द्र यादव पहुंचे संजयनगर, लोधिपरा, कृष्णा नगर प्रातः मोहल्ला निरीक्षण करने

महापौर देवेन्द्र यादव द्वारा आज प्रातः वार्ड 4 सुपेला अंतर्गत संजयनगर, लोधिपरा, कृष्णा नगर इत्यादि मोहल्लों का निरीक्षण दौर किया गया जिस दौरान उन्होंने वार्ड निवासियों से जनसंपर्क करते हुवे उनकी वार्ड की मूलभूत आवश्यकताओं का निरीक्षण किया साथ ही जनशिकायतों को संज्ञान में लेते हुवे आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यरूप से पूरे वार्ड क्षेत्र में नालियों की सफाई किए जाने का निर्देश देते हुवे महापौर ने उपस्थित सुपरवाइजर को फटकार लगायी एवं निरीक्षण के दौरान पाए गए नालियों में जाम मिट्टी मलबे की जल्द से जल्द सफाई किए जाने कहा , संजयनगर राजेन्द्र किराना स्टोर के समीप पूर्व में महापौर द्वारा की जनशिकायतों पर अमल करते हुवे बोर खनन करवाया गया जिसपर आज तक मशीन न डाले जाने की शिकायत पर महापौर ने दूरभाष के जरिए आयुक्त के एल चौहान से संपर्क कर उक्त कार्य संबंध में बात की साथ ही जल्द नई मशीन डाले जाने मोहल्लेवासियों को अस्वस्थ किया, कृष्णा नगर राजीव किराना के पीछे स्थित मार्ग पर नाली निकासी नहीं होने से हो रही असुविधा को दूर किए जाने कृष्णा नगर पहुँच मार्ग हो रहे नए नाली निर्माण में ही उक्त नाली निकासी जोड़ते हुवे पानी निकाले जाने मार्ग तैयार करने निर्देश दिया।मोहल्लेवासियों ने चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी प्रश्न उठाए एवं किसी भी अधिकारी या इंजीनियर द्वारा उक्त सड़क नाली निर्माण के जाँच न किए जाने की शिकायत की जिसपर महापौर ने विकास कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही न किए जाने एवं उक्त कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कर सूचित करने कहा।वार्ड 4 के दौरे के पश्च्यात वार्ड 05 लक्ष्मी मार्केट के निवासियों की आग्रह पर श्री यादव उक्त वार्ड भी पहुँचे जहाँ मुख्य रूप से पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शिकायत की , लक्ष्मी मार्केट में सप्लाई हो रहे शिवनाथ के पाइप लाइन से मटमैला दूषित पानी सप्लाई होने की शिकायत करते हुवे उपस्थित महिलाओं ने महापौर को उक्त पानी का सेम्पल भी दिखाया जिसकी जांच कराने का निर्देश देते हुवे मोहल्लेवासियों की मांग पर समीप स्थित बोर से पाइप लाइन कनेक्शन दिए जाने निर्देश दिए।उक्त वार्ड निरीक्षण के दौरान जोन 1 के आयुक्त श्री बी के देवांगन, सहायक अभियंता सुनील दुबे , उप अभियंता आलोक पसीने ,प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक धर्मेन्द्र मिश्रा आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे

